



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



22/1/81

सं० 30]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 1981/माघ 1, 1902

No. 30]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 1981/MAGHA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पट्टोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1981

का० आ० 38(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 का निम्नलिखित मशायन कर्त्तव्य है, अर्थात् :—

1. (i) इस आदेश का सजिप्न नाम औषधि (कीमत नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1980 है।
- (ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होता।
2. औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 में,—
- (क) प्रथम अनुसूची में, 'I प्रवर्ग' विनिर्दिष्ट ने प्रयुक्त प्रपञ्च औषधियाँ शिर्षक के अधीन क्रम सं० 23 में 'माफाइन सल्फेट' के स्थान पर "माफाइन" रखा जाएगा।

(ख) द्वितीय अनुसूची में,—

- (i) शीर्षक 'III कृमिनाशी' के नीचे, प्रविष्टि 6 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़े, अर्थात् :—  
"8 मेवेन्डाजोल";

(ग) शीर्षक 'V दमारोधी और आंत्रिक प्रतिरोधक (एन्टी सेप्टिक)' के नीचे प्रविष्टि 7 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़े, अर्थात् :—

"8 टर्बुटालीन",

(iii) शीर्षक 'VI प्रतिजीवी (एन्टोवायटिक)' के नीचे, प्रविष्टि 29 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़े, अर्थात् :—

"30 एमोक्सीसिलीन",

(iv) शीर्षक 'XXXVIII अन्य सरुपन-रोधी' के नीचे प्रविष्टि 11 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़े, अर्थात् :—

"12 मेसोनाजोल

13 मोनो सल्फरात (ट्रेमासोल)

14. सल्फा मेथाइजोल";

(v) शीर्षक 'XXXVIII अन्य संक्रमण रोधी' के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"XXXIX—केन्द्रीय तंत्रिका उद्दीपक

1. कैफीन 1";

(ग) तृतीय अनुसूची में, शीर्षक 'प्रवर्ग I विनिर्दिष्ट' के नीचे प्रविष्टि 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10 माफाइन इंजेक्शन"।

[सं० 8(4)/80-औषधि-2]

तार० एन० दास, उपा सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND  
FERTILIZERS**

(Department of Chemicals and Fertilizers)

**ORDER**

New Delhi, the 16th January, 1981

**S.O.38(E).**— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments to the Drugs (Prices Control) Order, 1979 namely:—

1. (i) This order may be called the Drugs (Prices Control) Second Amendment Order, 1980.
- (ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Drugs (Prices Control) Order, 1979—
  - (a) in the first Schedule, under the head '1 Bulk Drugs used in the Category I- formulations' in Sl. No. 23, for 'Morphine Sulphate' "Morphine" shall be substituted.
  - (b) in the Second Schedule,—
    - (i) under the heading 'III Anthelmintics' after entry 6, add following, namely:—  
"7 Mebendazole";

- (ii) under the heading 'V Anti-asthmatic and Enteric Antiseptics' after entry 7, add the following namely:—  
"8. Terbutaline" ;
- (iii) under the heading 'VI Antibiotics after entry 29, add following namely:—  
"30. Amoxicillin";
- (iv) under the heading 'XXXVIII other Anti-infectives' after entry 11, add the following namely:—  
"12. Meconazole.  
13. Monosulfaran (Tetmasole)  
14. Sulphamethizole".
- (v) after the heading 'XXXVIII' other Anti-infectives the following heading and entry shall be added namely:—  
"XXXIX—Central nervous system stimulants :  
1. Caffeine." ;
- (c) in the Third Schedule, under the head 'Category I formulations', for entry 10, the following shall be substituted namely:—  
"10. Morphine Injection".

[No. 8(4)/80-Drug. II]  
R.N. DAS, Dy. Secy.